

SIKKIM



GOVERNMENT

GAZETTE

**EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**

Gangtok

Thursday 12th September, 2024

No. 431

**GOVERNMENT OF SIKKIM
HOME DEPARTMENT
GANGTOK**

No: 68/Home/2024

Dated: 09/09/2024

NOTIFICATION

In partial amendment of Notification No. 52/Home/2024 dated 01.07.2024, the following College is hereby renamed with immediate effect namely :-

SL. NO.	NAME OF SCHOOL/COLLEGE	RENAMED AS
1.	Sanchaman Limboo Government Degree College, Aarigaon, Gyalshing District, West Sikkim.	Sanchaman Limboo Government College, Aarigaon, Gyalshing District, West Sikkim.

By Order and in the name of the Governor.

**R. Telang, IAS
Additional Chief Secretary
Home Department
Government of Sikkim
File No. Home/Confdl./139/1996/(1)**

सिक्किम

सरकारी



राजपत्र

असाधारण
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

गान्तोक

बिहीबार १२ सेप्टेम्बर, २०२४

सं. ४३१

गृह विभाग
सिक्किम सरकार
गान्तोक

सं: ६८/गृह/२०२४

मिति: ०९/०९/२०२४

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या ५२/गृह/२०२४ मिति ०१.०७.२०२४-लाई आंशिक संसोधन गर्दै, निम्न महाविद्यालयको नाम तत्काल प्रभावका साथ परिवर्तन गरिन्छ, जस्तै:-

क्र.सं.	विद्यालय/महाविद्यालयको नाम	पुनः नामाकरण
१.	सञ्चमान लिम्बू सरकारी डिग्री महाविद्यालय, आरीगाउँ, गेजिड जिल्ला, पश्चिम सिक्किम	सञ्चमान लिम्बू सरकारी महाविद्यालय, आरीगाउँ, गेजिड जिल्ला, पश्चिम सिक्किम

राज्यपालको नाम अनि आदेशमा।

आर. तेलाड, भाप्रसे
अतिरिक्त मुख्य सचिव
गृह विभाग
सिक्किम सरकार
फाइल सं. गृह/गोपनीय/१३९/१९९६/(१)